



प्रेस नोट

मिलिट्री इंटेलिजेंस और यूपी एटीएस के संयुक्त ऑपरेशन में रक्षा सूचनाएं लीक करने का आरोपी नागपुर से गिरफ्तार

08 अक्टूबर, 2018

फेसबुक द्वारा पाकिस्तान से महिलाओं की छद्म ID बनाना और भारत में संवेदनशील स्थानों पर कार्य कर रहे लोगो को फंसाने की कार्यप्रणाली प्रकाश में आने के बाद से यूपी एटीएस और मिलिट्री इंटेलिजेंस द्वारा लगातार इस पर निगाह रखी जा रही है।

इस विवेचना में 2 और फेसबुक आई.डी. निगाह में आयी जो कि महिलाओं के छद्म नाम से बनायीं गयीं और पाकिस्तान से संचालित की जा रही है। इनके द्वारा नागपुर स्थित एक रक्षा प्रतिष्ठान के इंजिनियर निशांत अग्रवाल पुत्र डॉ. प्रदीप अग्रवाल निवासी-म.नं. 51 गली नं.-7 उज्ज्वल नगर, नागपुर महाराष्ट्र से चैट होने का प्रमाण मिला।

कार्यवाही:-

- यूपी एटीएस द्वारा मा० न्यायलय से सर्च वारंट लिया गया और आज दिनांक 8.10.2018 को संदिग्ध निशांत अग्रवाल के आवास पर प्रातः काल तलाशी ली गयी।
- उनके व्यक्तिगत कंप्यूटर पर गोपनीय एवं अतिसंवेदनशील अभिलेख भी मिले।
- रक्षा प्रतिष्ठान के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा पुष्टि की गयी कि यह अभिलेख निशांत के व्यक्तिगत लैपटॉप पर नहीं होने चाहिये जो शासकीय गोपनीयता अधिनियम की धारा 3/4/5/9, 121A Ipc, 66D IT Act के अंतर्गत अपराध बनता है जिसके लिए निशान्त अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया।
- ATS द्वारा उनके कार्यालय की भी तलाशी ली गयी और साक्ष्य संकलन किया गया। उसके रुड़की स्थित आवास से भी उसका एक लैपटॉप बरामद किया गया है जिसका परीक्षण किया जाएगा।

अभियुक्त निशांत को नागपुर में मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर ट्रांजिट रिमांड की मांग की जाएगी और लखनऊ लाया जायेगा।

इसी क्रम में कानपुर और आगरा में भी एक-एक व्यक्ति की तलाशी ली गयी और पूछताछ की गयी। उनके लैपटॉप भी कब्जे में लिए गए हैं। परीक्षण के बाद उनका रोल और स्पष्ट होगा। साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

एटीएस यूपी के पुलिस उपाधीक्षक मनीष चन्द्र सोनकर एवं उनकी टीम।



असीम अरुण आई जी ए टी एस